



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1092]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 9, 2003/अग्रहायण 18, 1925

No. 1092]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 9, 2003/AGRAHAYANA 18, 1925

संस्कृति विभाग

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2003


का.आ. 1400(अ).— केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि इसके साथ उपाबद्ध स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट निज हाजो स्थित प्राचीन स्मारक प्राचीन अवशेष जैसेकि श्री श्री केदार मंदिर राष्ट्रीय महत्व का है:

अब, इसलिए, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958(1958 का 24) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने इरादे का इसके द्वारा नोटिस देती है।

उक्त प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए कोई आपत्ति राजकीय राजपत्र में इस अधिसूचना को जारी किए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर उक्त प्राचीन स्मारक में रुचि लेने वाले किसी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जिस पर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली 110011 द्वारा विचार किया जाएगा।

केदार मंदिर हाजो, जिला कामरुप, असम

0 50
मीटर



प्लॉट संख्या	क्षेत्र
1591	0.07 एकड़
1592	0.21 एकड़
	0.28 एकड़

संरक्षण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र: — . — . —

अनुसूची

राज्य	जिला	स्थान	स्मारक का नाम	संरक्षण के अधीन शामिल की जाने वाली राजस्व भूखंड संख्या	क्षेत्रफल	सीमाएं	स्वामित्व	अभ्युक्तिताएं
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
असम	कामरूप	निज हाजो पोस्ट हाजो राजस्व मंडल हाजो	श्री श्री केदार मंदिर के नाम से प्रसिद्ध निज हाजो स्थित प्राचीन अवशेष	सर्वेक्षण भूखंड सं० 1591 तथा 1592	0.07 एकड़ =(2.81 आर) 0.21 एकड़ =(8.56 आर)	सर्वेक्षण भूखंड सं० 1591 तथा 1592 जो सर्वेक्षण भूखंड सं० 2445, 2446, 1593, 1594 तथा 1595 से घिरा हुआ है।	सर्वेक्षण प्लॉट सं० 1591, 1592, 1594, 1596 डोलाई, श्री श्री हयग्रीव माधव देवालय (सर्वेक्षण प्लॉट सं० 1595 का आशय केदार मंदिर के भीतर श्री कामेश्वर मंदिर से है) सर्वेक्षण प्लॉट सं० 1593 का आशय श्री श्री जय दुर्गा मंदिर से है। 1594 का आशय केदार मंदिर टैंक से है तथा शेष सरकारी वन भूमि है।	श्री श्री केदार तथा कमलेश्वर मंदिर का प्रबंधन श्री श्री हयग्रीव माधव देवालय नाम तथा शैली की प्रबंधन समिति द्वारा किया जा रहा है जिसके प्रधान डोलाई (अध्यक्ष) श्री गोलोक चंद शर्मा हैं।

[फा. सं. 2-4/98-एस]
गौरी चटर्जी, महानिदेशक तथा अपर सचिव

**DEPARTMENT OF CULTURE
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA**

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2003

S.O. 1400(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the ancient monument, ancient remains at Niz Hajo known as Sri Sri Kedar Temple specified in the Site Plan and the Schedule annexed hereto, is of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958(24 of 1958), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said ancient monument to be of national importance;

Any objection to the declaration of the said ancient monument to be of national importance, may be made within a period of two months from the date of issue of this notification, by any person interested in the said ancient monument which will be taken into consideration by the Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi-110011.

**SITE PLAN OF
PREHISTORIC PAINTED ROCK SHELTERS AT SITA KHARDI
LOCALITY & TEHSIL-BHANDURA, DISTRICT-MANDSAUR, M.P.
(FOREST COMPARTMENT NO.1029, 1028 - RANGE RAMPURA)**




INDEX :

FOREST COMPARTMENT NO.
(C.NO. 1029)


NALA

PAINTED ROCK SHELTERS



A PART OF FOREST MAP AT RAMPURA
(SHEET NO. 45 PNE SV)
RANGE RAMPURA. DISTT. MANDSAUR

500 0 500 2000 METRES



REMAINING PART OF C. NO. 1028

AREA PROPOSED FOR PROTECTION

3663 GI/03-2

SCHEDULE

STATE	DISTRICT	LOCALITY	NAME OF	REVENUE PLOT NO. INCLUDED UNDER PROTECTION	AREAS	BOUNDARIES	OWNERSHIP	REMARKS
1 ASSAM	2 KAMRUP	3 NIZHAJO P.O.-HAJO REV. CIRCLE HAJO	4 ANCIEN REMAINS AT NIZHAJO KNOWN AS SRI SRI KEDAR TEMPLE	5 SURVEY PLOT NO. 1591 & SURVEY PLOT NO. 1592 AREA	6 0.07 ACRE =(2.81 R) 0.21 ACRE =(8.56 R)	7 Survey Plot No. 1591 and 1592 bounded by survey plot No. 2445, 2446, 1593, 1594 AND 1595	8 Survey Plot No. 1591 1592, 1594, 1596 belongs to Doloi, Sri Sri Hayagib Madhab Devalaya. (Survey plot No. 1595 meant for Sri Sri Kameswar Temple within the Kedar Temple) Survey Plot No. 1593 meant for Sri Sri Joy Durga Temple. Survey Plot No. 1594 for the Kadar Temple Tank and rest Govt. Forest land.	9 Temples " SRI SRI KEDAR and KAMALESWAR are being managed by the Management Committee by name and style Sri Sri Hayagib Madhab Devalaya, headed by the Doloi (President) Sri Golok Ch. Sarma.

[F. No. 2-4/98-M]

GAURI CHATTERJI, Director General & Addl. Secy.